

05th February, 2026

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001. Scrip Code: 532782	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai 400 051. Scrip Code : SUTLEJTEX
---	--

Dear Sirs / Madam,

Sub: Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities - Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with the Circular issued by SEBI dated 30th January, 2026, please find enclosed the newspaper advertisement, pertaining to the opening of special window for transfer and dematerialization of physical securities, published in Business Standard (English - All edition) and Rajasthan Patrika (Hindi Daily - Jhalawar edition).

This is for the information of the members and exchanges.

Thanking you

Yours faithfully
For **Sutlej Textiles and Industries Limited**



Manoj Contractor
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: a/a

SIL INVESTMENTS LIMITED

CIN NO : L17301RJ1934PLC002761

Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi 326502 (Ra.) | Tel No. : (07433)222052/54/82

Email: investor.grievances@silinvestments.in Website: www.silinvestments.in

Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Securities of SIL Investments Limited

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD// 3750/2026 dated 30th January, 2026, Shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window has been opened from 05th February, 2026 to 04th February, 2027 for transfer and dematerialization of physical securities. This special window is available to only those Shareholders whose transfer requests were lodged prior to 01st April, 2019 for transfer of physical shares and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / or otherwise. Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to submit the original security certificate(s), transfer deed and all other documents listed in the Circular, to the Company's Registrar and Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited, C-101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel: +918108116767 and email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com. The Circular is available on the Company's website under the Investors section at www.silinvestments.in

The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat form. In case of any queries, Shareholders are requested to raise a service request at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or investor.grievances@silinvestments.in

For SIL Investments Limited

Sd/- Lokesh Gandhi

Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai

Date: 04th February, 2026

RAIN INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off : Rain Center, 34, Srinagar Colony, Hyderabad-500 073, Telangana State, India.

Ph.No. : 040-04041234

Email:secretarial@rain-industries.com; website:www.rain-industries.com

CIN: L26942TG1974PLC001693

NOTICE

A) Special Window for Re-lodgment of Mirsd- Pod/ I/3750/ 2026, dated January 30, 2026, the Company is pleased to offer one time special window for physical shareholders to submit re-lodgment requests for the transfer of shares. The Special Window will be open from February 05, 2026 to February 04, 2027 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at KFin Technologies Limited, Unit: Rain Industries Limited, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad– 500 032, Telangana State, India, Phone: 040-67161566 within the stipulated period.

B) Notice For Transfer Of Unclaimed Dividend and Shares to IEPF

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, the unclaimed dividend amounts will be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on expiry of the Statutory time period of Seven Years from the date they became due for the payment.

As per the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, all shares in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years or more shall be transferred to Investor Education And Protection Fund Authority Account.

The Members who have not encashed their dividends may claim by writing a letter / email to the Company at the address given above.

C) Update KYC and convert physical shares into demat mode

The shareholders who are holding shares in physical form are requested to update their KYC to credit unclaimed dividends to their bank account through electronic mode and also requested to convert their physical shares in to dematerialized form (electronic form).

for RAIN INDUSTRIES LIMITED

Sd/- S. Venkat Ramana Reddy

Company Secretary

Place : Hyderabad

Date : February 4, 2026

NOMURA

NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED

Ceejay House, Level 11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018.

CIN: U67190MH2009FTC194618

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ in million)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	443.2	578.9	2,007.9
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	125.4	371.5	1,022.1
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	125.4	371.5	1,022.1
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	91.7	277.0	759.1
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	91.7	277.0	758.9
6	Paid up Equity Share Capital	1,300.0	1,300.0	1,300.0
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8,627.8	8,122.0	8,106.1
8	Securities Premium Account	3,247.9	3,247.9	3,247.9
9	Net worth	9,927.8	9,410.9	9,406.1
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	8,713.3	9,728.3	9,750.1
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	–	–	–
12	Debt Equity Ratio (%)	88.04%	103.64%	104.02%
13	Earnings per equity share* (Face Value ₹10/- per share)			
	1. Basic:	0.71	2.13	5.84
	2. Diluted:	0.71	2.13	5.84
14	Capital Redemption Reserve	–	–	–
15	Debenture Redemption Reserve	–	–	–

*EPS is not annualised for interim period

Note:

a) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on February 04, 2026. The auditors have issued unmodified conclusion on the financial results for the nine months ended December 31, 2025.

b) The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the National Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The quarterly financial results are available on the websites of the National Stock Exchange (www.nseindia.com) and the company's website (<https://www.nomuraholdings.com/company/group/asia/ncipl.html>).

c) For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange (NSE) and can be accessed on the www.nseindia.com.

d) Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio are not applicable as the company is an NBFC.

For and on behalf of the Board of Directors of

Nomura Capital (India) Private Limited


Sd/- Saurabh Banglani

Director

DIN : 10497938

Date : February 04, 2026

Place : Mumbai



PFIZER LIMITED

CIN: L24231MH1950PLC008311

Registered Office: Pfizer Limited, The Capital, 1802/1901, Plot No. C-70, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Tel: +91 22 6693 2000 Fax: +91 22 2654 0274

Website: www.pfizerltd.co.in E-mail ID: contactus.india@pfizer.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

We draw the attention of the investors whose transfer requests of physical shares of Pfizer Limited ("the Company") lodged prior to April 1, 2019 were rejected / returned / not attended to due to deficiency in the documents / process / or otherwise.

Pursuant to the SEBI circular dated July 2, 2025, a special window was opened for re-lodgement of transfer deeds of physical securities. In order to further facilitate the investors, SEBI vide circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026 has directed the Companies to open another special window, from February 5, 2026 to February 4, 2027, for re-lodgement of transfer and dematerialisation of physical securities which were sold / purchased prior to April 1, 2019.

The concerned investors may, accordingly, re-lodge the transfer deeds and furnish necessary documents, duly completed in all respects, to the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 to enable further processing and transfer of shares, in compliance with the applicable laws.

For Pfizer Limited

Sd/- Prajeet Nair

Director – Corporate Services & Company Secretary

ACS 19267

Place: Mumbai

Date: February 4, 2026

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that the following shares certificates of KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED, registered office, 6th Floor, 27BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400041 registered in the name of A Indirani (Deceased) & A Ramesh and was sent to No. 639, 6th Main road, Near Vishwaraaya Park, HAL 3rd stage, New Thippasandra, Bangalore North - 560075, has not been in the possession of A Indirani (Deceased) & A Ramesh, Shareholders.

This share Certificate has been lost, Misplaced and stolen not found.

Name of Shareholder/s	Folio No.	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos.	
				From	To
A Indirani (Deceased) & A Ramesh	KMF005170	400417	400	94951786	94952185
A Indirani (Deceased) & A Ramesh	KMF005170	505528	1200	228924210	228925409
A Indirani (Deceased) & A Ramesh	KMF005170	804026	4000	916834786	916838785

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such complaint with the company or its registrar and transfer agents, KFin Technologies Limited, Plot No 31-31, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, Telangana within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue a Duplicate Share Certificate.

BANGALORE 05.02.2026 A RAMESH (Joint Holder)

SUTLEJ

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

CIN NO : L17124RJ2005PLC020592 | Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi 326502 (Ra.) | Ph: (07433)222052/54/82 | Email: investor.relations@sutlejtextiles.com | Website: www.sutlejtextiles.com

Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Securities of Sutlej Textiles and Industries Limited

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD//3750/2026 dated 30th January, 2026, Shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window has been opened from 05th February, 2026 to 04th February, 2027 for transfer and dematerialization of physical securities. This special window is available to only those Shareholders whose transfer requests were lodged prior to 01st April, 2019 for transfer of physical shares and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / or otherwise. Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to submit the original security certificate(s), transfer deed and all other documents listed in the Circular, to the Company's Registrar and Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited, C-101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel: +918108116767 and email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com. The Circular is available on the Company's website under the Investors section at www.sutlejtextiles.com

The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat form. In case of any queries, Shareholders are requested to raise a service request at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or investor.relations@sutlejtextiles.com


For Sutlej Textiles and Industries Limited

Sd/- Manoj Contractor

Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai

Date: 04th February, 2026



SAMMAAN CAPITAL


Sammaan Capital Limited (Formerly Indiabulls Housing Finance Limited) (as standalone entity)

(CIN: L65922DL2005PLC136029)

Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025

Additional Information in Compliance with the provisions of Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sr. No.	Particulars	As on December 31, 2025	
		Quarter ended	Year ended
1	Debt Equity Ratio ((Debt Securities + Borrowings (Other than Debt Securities) + Subordinated liabilities) / Own Funds)	1.98	
2	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC	
3	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC	
4	Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	N.A.	
5	Capital Redemption Reserve (Rs. in Crores)	0.36	
6	Debenture Redemption Reserve (Rs. in Crores)	146.39	
7	Equity (Equity share capital + Other equity) (Rs. in Crores)	23,412.46	
8	Net Profit after Tax (Rs. in Crores)	857.66	
9	Earnings per Share (EPS) - Basic (Amount in Rs.) - not annualised	10.34	
	Diluted (Amount in Rs.) - not annualised	10.34	
10	Current Ratio	Not Applicable, being an NBFC	
11	Long term debt to working capital	Not Applicable, being an NBFC	
12	Bad debts to Account receivable ratio	Not Applicable, being an NBFC	
13	Current liability ratio	Not Applicable, being an NBFC	
14	Total debts to total assets (Debt Securities + Borrowings (Other than Debt Securities) + Subordinated liabilities) / Total Assets	0.64	
15	Debtors turnover	Not Applicable, being an NBFC	
16	Inventory turnover	Not Applicable, being an NBFC	
17	Operating Margin	Not Applicable, being an NBFC	
18	Net profit Margin (Profit after tax / Total Income)		
	As on Quarter ended 31 December 2025	13.87%	
	As on nine months ended 31 December 2025	13.56%	
19	Other Ratios (not subjected to review)		
(A)	% of Gross Non Performing Assets (Gross NPA / Loan Book)	1.65%	
(B)	% of Net Non Performing Assets (Net NPA / Loan Book)	0.98%	
(C)	Liquidity Coverage Ratio (%) for Q3 FY 26	211%	
(D)	Capital to risk-weighted assets ratio (Calculated as per RBI guidelines)	25.39%	



SAMMAAN CAPITAL

Sammaan Capital Limited

(Formerly Indiabulls Housing Finance Limited) (CIN: L65922DL2005PLC136029)

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025

(Rupees in Crores)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Year ended
		31.12.25 (Reviewed)	31.12.25 (Reviewed)	31.12.24 (Reviewed)	31.03.25 (Audited)
1.	Total Income from Operations	419.07	1,312.21	417.25	8,623.33
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	419.07	1,312.21	417.25	(2,375.57)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	419.07	1,312.21	417.25	(2,375.57)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	314.08	956.86	302.44	(1,807.46)
5.	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	94.83	522.68	291.12	(1,660.24)
6.	Equity Share Capital	162.76	162.76	146.02	162.70
7.	Earnings per Share (EPS) (not annualised)				
	-Basic (Amount in Rs.)	3.86	11.76	4.17	(26.70)
	-Diluted (Amount in Rs.)	3.84	11.76	4.16	(26.70)

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee on February 04, 2026 and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on February 04, 2026.

2. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 – Interim Financial Reporting, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.

3. Key Standalone Financial Information:


Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Year ended
	31.12.25 (Reviewed)	31.12.25 (Reviewed)	31.12.24 (Reviewed)	31.03.25 (Audited)
Total Income	2053.48	6,322.80	1,905.25	7,671.14
Profit before Tax	373.23	1,158.22	385.77	1,273.78
Net Profit after Tax	284.77	857.66	281.91	942.69

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (<https://www.sammaancapital.com>) and on the website of BSE (<http://www.bseindia.com>) and NSE (<http://www.nseindia.com>).

5. Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Registered Office: A - 34, 2nd & 3rd Floor, Lalpat Nagar-II, New Delhi-110024

For Details Kindly Scan Below QR Code



For and on behalf of the Board of Directors

Gagan Banga
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date : February 04, 2026

REDINGTON LIMITED

Registered office: Block 3, Plathin, Redington Tower, Inner Ring Road, Saraswathy Nagar West, 4th Street, Puzhuthivakkam, Chennai - 600 091

Website: www.redingtongroup.com | Email: investors@redingtongroup.com

CIN: L52599TN1961PLC028758

Board No: +91-44-42243111

Extract of unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months Ended December 31, 2025

₹ in Crores

Sl. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter Ended	Quarter Ended	Nine months Ended	Year Ended
		December 31, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	March 31, 2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Revenue from operations	30,921.73	26,716.08	85,949.33	99,333.65
2.	Profit before exceptional item and tax	537.78	512.88	1,301.87	1,709.04
3.	Profit before tax	537.78	512.88	1,301.87	2,334.81
4.	Profit after exceptional item and tax	413.39	402.96	996.57	1,820.62
5.	Total comprehensive income	455.06	475.04	1,185.32	1,819.94
6.	Equity share capital	156.35	156.35	156.35	156.35
7.	Reserves and surplus (Other equity except Securities premium account)	9,162.90	7,751.90	9,162.90	8,388.57
8.	Securities premium account	176.12	176.12	176.12	176.12
9.	Networth	9,495.37	8,084.37	9,495.37	8,721.04
10.	Non-controlling interest	355.61	251.21	355.61	476.16
11.	Outstanding Debt	2,170.74	3,314.11	2,170.74	2,619.18
12.	Debt-equity ratio	0.22	0.40	0.22	0.28
13.	Earnings per Equity Share: (Face Value - ₹ 2/- per share) (not annualized for quarters)				
	1. Basic (in ₹)	5.57	5.12	14.06	20.53
	2. Diluted (in ₹)	5.57	5.12	14.06	20.53
14.	Debt service coverage ratio (in times) (not annualised)	7.84	6.51	5.54	5.66
15.	Interest service coverage ratio (in times) (not annualised)	7.84	7.11	5.54	6.18


Notes

1. Summarized Standalone Financial Results of the Company is as under:

Sl. No.	Particulars	Standalone			
		Quarter Ended	Quarter Ended	Nine months Ended	Year Ended
		December 31, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	March 31, 2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Revenue from operations	16,271.35	13,094.86	44,213.75	48,902.50
2.	Profit before tax	304.68	530.66	1,182.39	1,698.21
3.	Profit after tax	223.36	460.56	955.35	1,443.76

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine-Months / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available in the website of the National Stock Exchange of India Limited (NSE) www.nseindia.com and BSE Limited (BSE) www.bseindia.com and are available in the Company's website www.redingtongroup.com.

3. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Redington Limited at their meeting held on February 4, 2026.



Place : Chennai

Date : February 4, 2026

For Redington Limited

S V Krishnan

Finance Director (Whole-time)

Scan for full results

<https://redingtongroup.com/wp-content/uploads/2026/02/FINALSEIintimationFinancialresultsReg33Feb4.pdf>

अकलेरा में कलाल समाज के 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

पत्रिका
patrika.com

अकलेरा. हेत्य क्षत्रिय कलाल समाज द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन बुधवार को निजी रिसोर्ट में हुआ। इसमें समाज के 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः श्रीगणेशजी की स्थापना के साथ हुआ। इसके पश्चात



अकलेरा. सामूहिक विवाह सम्मेलन में स्टेज पर मौजूद दूल्हा और दुल्हन।

लक्ष्मीनारायण धोबी समाज के अध्यक्ष बने



चौमहला. बसीटा रजक धोबी समाज की बैठक में मौजूद लोग।

चौमहला @ पत्रिका. बसीटा रजक धोबी समाज गंगधारी-चौमहला की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव हुए। इसमें पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण परमार को अध्यक्ष बनाया। साथ ही मुकेश गुजरिया को उपाध्यक्ष, संतोष परमार को कोषाध्यक्ष, राहुल मोरी को सचिव, रवि मालवीय को महामंत्री, दिनेश मोरी को संगठन मंत्री, प्रदीप

परासिया को संयुक्त मंत्री व रमेश चंद्र परमार, शंकरलाल कराड़िया, हीरालाल कोदिया, जगदीश परासिया व कालुलाल मोरी को सलाहकार बनाया। सभी ने समाज के विकास के लिए पूरी निष्ठा समर्पण भाव से काम करने की शपथ ली। समाज के संस्थापक मोतीलाल कोदिया, पूर्व अध्यक्ष दिलीप मोरी सहित कई लोग उपस्थित रहे।

शबे बरात पर मोमिनों ने की इबादत



डग. शबे बरात के दौरान इबादत करते मोमिन।

डग. नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में शबे बरात का पर्व मोमिनों ने पूरी अक्रीदत, इबादत और अमन-चैन की दुआओं के साथ मनाया। मुबारक रात के अक्सर पर घर-घर में मिष्ठान बनाए और अक्सर की नमाज के बाद फातिहा दिलाई। बड़ी संख्या में मोमिन दरगाहों, आस्तानों मुबारक और कब्रिस्तानों में पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों और मरहूमों के लिए फातिहा पढ़ी। इस दौरान फूल,

आगरबत्ती व इत्र पेश कर अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं मांगी। कब्रिस्तानों में देर शाम तक रोशनी, खुशबू और दुआओं का माहौल बना रहा। वहीं मोमिनों ने रात जाग कर मस्जिदों में इबादत की। शबे बरात को रहमत, बरकत और गुनाहों से माफ़ी की रात माना जाता है। इस अवसर पर मोमिनों ने अल्लाह से मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी।

SUTILE

सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएस :- L117301R1934PLC002761
पंजीकृत कार्यालय :- पंचपरहार रोड, भगवानिन्दी-326502 (राज.) टेलीफोन :- (07433)222052/54/82
ई-मेल आईडी :- investor.relations@satijetextiles.in वेबसाइट :- www.satijetextiles.in

सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो केवल उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है जिनके भौतिक शेयरों के ट्रांसफर हेतु अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से अस्वीकृत / वापस कर दिए गए / लंबित रह गए थे।
जो शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र, ट्रांसफर डीड तथा परिपत्र में उल्लेखित अन्य सभी दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमएफएजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, एम्बेसी, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विकोली (9), मुंबई - 400083, संपर्क नंबर (+ 91) 8108116767 और ईमेल आईडी :- rnt.helpdesk@in.mpmis.mufg.com के पते पर जमा करें। यह परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.satijetextiles.com के "Investors" अनुभाग में उपलब्ध है।
जो शेयर ट्रांसफर हेतु पुनः जमा किए जाएंगे, उन्हें केवल डीमैट रूप में ही जारी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए शेयरधारक rnt.helpdesk@in.mpmis.mufg.com अथवा investor.relations@satijetextiles.com पर सेवा अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 फरवरी, 2026

नगर कांस्टेबल
कंपनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
सीआईएस :- L117301R1934PLC002761
पंजीकृत कार्यालय :- पंचपरहार रोड, भगवानिन्दी-326502 (राज.) टेलीफोन :- (07433)222052/54/82
ई-मेल आईडी :- investor.relations@silinvestments.in वेबसाइट :- www.silinvestments.in

एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो केवल उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है जिनके भौतिक शेयरों के ट्रांसफर हेतु अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से अस्वीकृत / वापस कर दिए गए / लंबित रह गए थे।
जो शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र, ट्रांसफर डीड तथा परिपत्र में उल्लेखित अन्य सभी दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमएफएजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, एम्बेसी, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विकोली (9), मुंबई - 400083, संपर्क नंबर (+ 91) 8108116767 और ईमेल आईडी :- rnt.helpdesk@in.mpmis.mufg.com के पते पर जमा करें। यह परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.silinvestments.in के "Investors" अनुभाग में उपलब्ध है।
जो शेयर ट्रांसफर हेतु पुनः जमा किए जाएंगे, उन्हें केवल डीमैट रूप में ही जारी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए शेयरधारक rnt.helpdesk@in.mpmis.mufg.com अथवा investor.relations@silinvestments.in पर सेवा अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 फरवरी, 2026

नगर कांस्टेबल
कंपनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

SIL INVESTMENTS LIMITED
CIN :- L117301R1934PLC002761
Regd. Office :- Pachphar Road, Bhawaninandi-326502 (Rajasthan) Tel. No. 07433-222082;
Email: compliance@silinvestments.in Website :- www.silinvestments.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2025

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on 04th February, 2026 approved the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2025.
The full financial results of the Company along with the Auditor's Limited Review Report, are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and are also posted on the Company's website at https://www.silinvestments.in/pdfs/Unaudited/UnAud_DEC2025.pdf which can be accessed by scanning the Quick Response (QR) code.

Place : Kolkata
Date : 04th February, 2026

For SIL INVESTMENTS LIMITED
(C.S. Nopany)
Chairman

Note : The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(i) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

राउप्रावि हरिपुरा में पर्यावरण जागरूकता शिविर

सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ रहा प्रदूषण

पत्रिका
patrika.com

झालरापाटन. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा में पर्यावरण जागरूकता शिविर लगा।

अधिकार मित्र भारत मीणा ने बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताते हुए कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में पॉलिथीन के अंधाधुंध उपयोग के कारण पर्यावरण खराब हो रहा है। जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक प्रमुख हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक के दूसरे विकल्प तलाशें, जैसे कागज के पकेट या फिर कपड़े का थैला। क्योंकि प्लास्टिक से जो रसायन निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है। इसके साथ ही जमीन की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता को भी खराब करता है। आजकल हम बाजार से सब्जियां प्लास्टिक पाउच में लाते हैं और फिर बची हुई सब्जियों व खाद्य सामग्री को इन्हीं थैलियों में सड़क या गली में इधर-उधर फेंक देते हैं। जिन्हें मवेशी खाकर बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटना ना हो इसके लिए हमें इसके अन्य विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बढ़ते कीटनाशकों के प्रभाव से बचने के लिए हमें कृषि में



झालरापाटन. विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी।



रीछवा. नसीराबाद के पीएमश्री राउमावि में व्याख्यान देते हुए।

कीटनाशक के बजाय जैविक खेती को अपनाना होगा। क्योंकि कीटनाशक के छिड़काव से खेत में रसायनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो कमजोर होती ही है साथी मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण कई सारी खान-पान जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। जिससे कई सारे जानवर पशु पक्षी की प्रजातियां या तो बहुत तेजी से घट रही हैं या कुछ विलुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में हमें इस समस्या से निपटने के लिए कीटनाशक के अति उपयोग को रोकना ही होगा और इसकी जगह

पारंपरिक कृषि अथवा जैविक खेती की ओर लौटना होगा। तभी हम अपने वाली पीढ़ी को एक अच्छी आदर्श कृषि नुमा विरासत सौंप पाएंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। जिससे स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण हो सके। उन्होंने राज्य व्यापी अभियान न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं के सुलभ समाधान के तहत आमजन को स्थाई लोक अदालत विशेष अभियान सर्वे भी किया। साथ ही बच्चों को बालविवाह, दहेजप्रथम, बाल मजदूरी, कन्या धूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के बारे में जानकारी दी।

भागवत कथा में उमड़ पड़ी भीड़



आवर @ पत्रिका. क्षेत्र के ग्राम बड़िया लडाका स्थित श्रीकालेश्वर मंदिर प्रांगण में समस्त ग्रामवासियों के जनसहयोग से आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ी। समापन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की महाआरती हुई।

जिसमें सपलीक महाआरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। महाआरती के दौरान पूरा वातावरण "जय श्रीकृष्ण" और "हरि बोल" के जयघोष से गूंज उठा। कथा वाचक पं.गोपाल पुरोहित ने अपने अंतिम उद्बोधन में भागवत कथा के सार को बताते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत मानव जीवन को

धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। समापन अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, महिलाएं, पुरुष एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया।

खंडिया चौराहे के फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों से दुर्घटना का अंदेश

झालावाड़ @ पत्रिका. झालरापाटन से झालावाड़ मार्ग पर खंडिया चौराहा के यहां मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगी दुकानों से यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ ही हमेशा दुर्घटना का अंदेश बना रहता है।



झालरापाटन. खंडिया चौराहा पर सड़क किनारे बैठे दुकानदार।

भी है, जहां पर अक्सर यातायात अलावा जिले के आला अधिकारियों की भी इसी सड़क पर होकर गुजरना

पुलिसकर्म खड़े रहते हैं, इसके

रहता है। इसके बावजूद इस दुर्घटना पॉइंट पर किसी का ध्यान नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस सड़क पर होकर छोटे से लेकर बड़े वाहन निकलते हैं। यहां पर ही सभी रास्तों का घुमाव है, जिससे वाहन चालकों को इनके कारण अपने वाहन निकासने में परेशानी महसूस करना पड़ती है।

पूर्व में भी जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर बैठने वाले इन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ समय बाद यह वापस यहां आकर बैठने लगे हैं।

भगवान के विमान की शोभायात्रा निकाली



पत्रिका
patrika.com

अकलेरा. नगर में राठौर तेलियान पंचायत द्वारा भगवान श्रीलक्ष्मी नारायण एवं श्रीराम-जानकी मंदिर की मूर्ति प्राण प्रक्रिया की प्रथम वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम का आयोजन बाबूलाल राठौर की अध्यक्षता में किया। इस अवसर पर पुलिस चौकी के सामने स्थित समाज के मंदिर से भगवात्रा के विमान की शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा बस स्टैंड अकलेरा से प्रारंभ होकर रामद्वारा चौराहा, भोपाल नाका होते



अकलेरा. शोभायात्रा में मौजूद राठौर तेलियान समाज के लोग

हुए विवेकानंद चौराहे से गुजरती हुई पुनः मंदिर पहुंची, जहां समापन हुआ। शोभायात्रा में समाज के पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे पारंपरिक उत्साह के साथ शामिल हुए। रास्ते भर आतिशबाजी, भजन-कीर्तन व नृत्य

से माहौल भक्तिमय बना रहा। बड़ी संख्या में राठौर समाजजनों ने बह्दकर भाग लिया। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने पर भगवान की विधिवत आरती की एवं प्रसादी का वितरण किया।

तीसरे दिन हुए क्रिकेट के कई मैच



झालावाड़ @ पत्रिका. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स की राजकीय खेल संकुल में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई मैच हुए। कार्यक्रम संयोजक यश श्रुंगी एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल, परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष हिमांशु तिवारी का प्रोफेसर जितेंद्र वैष्णव, कन्हैया मीणा ने स्वागत किया। कार्यक्रम सह-संयोजक गौरव टेलर एवं दुर्गेश दांगी, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज गोस्वामी, यश गहलोत व पुरूषोत्तम लोधा आदि मौजूद रहे।

केसरपुरा में 130 जोड़ों ने किया हवन



छोटी सुनेल @ पत्रिका. ग्राम पंचायत उन्हेल के केसरपुरा गांव में देव नारायण भगवान मंदिर देवधाम में चल रहे 108 कुण्डीय विष्णु महायज्ञ में 130 जोड़ों ने हवन किया। सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आयोजन समिति एवं देवधाम के केसरपुरा से जुड़े पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

राजस्थान सरकार
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाईई तह, शाहाबाद जिला बारा (राज.)
बीबीबी विद्यालय
दिनांक 02/2/2025
शर्वाचार्य को सूचित किया जाता है कि राजकीय नाईई तह के जहाँ भवन कक्षा 6 को जमींदार कर मरवा हटाकर समस्त भूमि प्रदान करने हेतु नवीनीकरणों को खुली बोली हेतु आयोजित किया जाता है -
मुख्य शर्तें - 1. खुली बोली दिनांक 09.02.2026 सोमवार को दोपहर 1.00 पीएम पर विद्यालय परिसर में आयोजित होगी।
2. बोलीदाता धरोहर राशि 10000 रुपये नगद जमा करवाकर ही बोली में भाग ले पायेगा जो कि विद्यालय में दिनांक 08.02.2026 को 12.30 बजे तक जमा करानी है। 3. सर्वाधिक बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि विद्यालय में अग्रिम जमा करने के बाद ही सप्त दिवस में मलवा विद्यालय से हटाने की अनुमति होगी ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जमा कर की जायेगी। 4. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत तिथि परिवर्तन तथा विवाद की स्थिति सर्वाधिकार एसआरएमसी गार्ड के यहाँ विद्यमान होगी एवं पत्राचार आलोचना विद्यालय द्वारा ही अंजाम कर सकते हैं। विद्यालय भवन ध्वस्त करने समय कोई भी कच्चापट्टी हटाने हेतु न्यूनतम विवेकदार विद्यालय प्रबंध समिति की नहीं होगी।
TAN NO:-JDDH05246D
Mob No.-7597375848 MAIL-GSSSNATAT@GMAIL.COM
प्रधानाचार्य
राजकीय नाईई तह
पं.स. शाहाबाद जिला बारा

कार्यालय अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी
प्रथम तल, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक
गणेश बाग, देवपुरा, बून्दी-323001
E-mail:adpcsmsa.bnd23@gmail.com

क्रमांक:- जिस/समस/बून्दी/2025-26/2010 दिनांक - 04/02/2026

Notice Inviting Bid
Bid for "Refreshable Braille Display (RBD)" are inviting from interested bidders up to 10-02-2026 on 12:00 P.M. Other Particulars of the bid may be visited on the <http://sppp.raj.nic.in> of the state.

S.N.	Name of Work	Estimated Cost	NIB No.	UBN No.
01	Refreshable Braille Display (RBD)	1.10	RSE2526A1778	RSE2526GSLB 06656

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, बून्दी

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
महाराष्ट्र भूमिर्षा मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा
निविदा सूचना संख्या- 31/2025-26

विश्वविद्यालय द्वारा RUSA 2.0 Scheme के अन्तर्गत Supply and Installation of Computers and Printers for various Offices/ Departments of the University हेतु अनुभव की एवं प्रतिष्ठित निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में अनुमानित लागत रु. 272.75 लाख की ई-निविदा दिनांक 24/02/2026 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।
निविदा प्रपत्र एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> और University Website www.uok.ac.in पर उपलब्ध है।
UBN:-UOK2526GLOB00033

कुलसचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां
E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244
क्रमांक:- एफ()/ऊय/निविदा/2025-26/ दिनांक:-

Notice Inviting Bid No-65/2025-26
Bids for Various Construction Works in Ramgarh Crater Range Kishanganj Total Estimate Value Rs. 25.37 Lacs are invited from interested bidders upto 02:00 PM on 14.02.2026 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> of the State & at our office in office hours.
NIB Code-FOR2526A3826
UBN No.-FOR2526WSOB05295

उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय नगर पालिका डग, जिला झालावाड़ (राज.)
क्रमांक:- न.पा. डग/भूमि/2026/1061 दिनांक 03/02/2026

-सर्वजनिक सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका डग में सीमान्तगत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण / निर्माण स्वीकृति / अनापति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 याम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। (वाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र. सं.	नाम/ पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	उप डाक्टर डग, जरिये उपनिर्देशक भवानीभंडी	भूमि खसरा नं. 3704 पठारी नई आबादी, डग	पट्टा फाईल
2	सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डग	भूमि खसरा नं 0 3705/1 नई आबादी पठारी पानी कि टंकी के पास, डग	पट्टा फाईल
3	सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डग	भूमि खसरा नं. 3851 गेब साहब बाबा, पानी कि टंकी के पास, डग	पट्टा फाईल
4	सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डग	भूमि खसरा नं. 519 गंगधार रोड, डग	पट्टा फाईल
5	श्री योगेन्द्र कुमार वेण्णव आ. श्री मोहनदास वेण्णव	बावसार मोहल्ला डग, खसरा नं. 3851	निर्माण स्वीकृति
6	श्री उत्तमचंद जैन आ. श्री कैशरीमल जैन	भवानीभंडी रोड द सन पब्लिक स्कूल के पास डग, खसरा नं. 1485/01	निर्माण स्वीकृति
7	श्रीमति प्रेमबाई पति श्री दिनेश कुमार टेलर	गायत्री मंदिर के पास, डग खसरा नं. 3853	अनापति प्रमाण पत्र
8	श्री राजेन्द्र सिंह आ. श्री देवी सिंह	टोडी मोहल्ला डग, खसरा नं. 3851	अनापति प्रमाण पत्र
9	श्रीमति कमलबाई पति श्री कालुलाल	नीम चोक डग, खसरा नं. 3851	आवासीय पट्टा

अधिकाधिक अधिकारी
नगर पालिका डग